



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1170]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 12, 2016/वैशाख 22, 1938

No. 1170]

NEW DELHI, THURSDAY, MAY 12, 2016/ VAISAKHA 22, 1938

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 मई, 2016

का.आ. 1739(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 2803(अ), तारीख 13 अक्टूबर, 2015, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के रायपुर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 (नया राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-53) के 230.490 कि.मी. से 238.966 कि.मी. (आरंग-सरायपाली सेक्शन) तक के भूखण्ड के निर्माण (चौड़ा करने/चार/छह लेन का बनाने, आदि), अनुसूचन, प्रबन्ध और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ।

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख 3 नवम्बर, 2015 को “पत्रिका” और “दि हितवाद” दोनों में प्रकाशित किया गया था ।

और सक्षम प्राधिकारी को किसी व्यक्ति से कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुए हैं ।

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ।

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ।

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

छत्तीसगढ़ राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 (नया राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-53) के 230.490 कि.मी. से 238.966 कि.मी. तक बाईपासों के निर्माण सहित (आरंग-सरायपाली सेक्शन) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

| क्रम संख्या | जिले का नाम | तालुक/तहसील का नाम | गाँव का नाम | खसरा संख्या | भूमि का प्रकार | भूमि की प्रकृति | भूमि का क्षेत्रफल (वर्गमीटर में) | हितबद्ध व्यक्तियों के नाम |
|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | रायपुर | आरंग | (1) आरंग | 1611 | शासकीय | रास्ता | 1276 | छ.ग. शासन |
| | | | | 1612 | शासकीय | रास्ता | 544 | छ.ग. शासन |
| | | | | 1613 | शासकीय | रास्ता | 360 | छ.ग. शासन |
| S | | | (2) बैहार | 364 | निजी | कृषि योग्य भूमि | 450 | कमलनारायण पिता मनराखन गुप्ता |
| | | | | 366 | निजी | कृषि योग्य भूमि | 1576 | बृजभूषण पिता चन्दुलाल अन्य वगैरह |
| | | | | 368/3 | निजी | कृषि योग्य भूमि | 40 | रॉबिन पिता बृजमोहन गुप्ता |
| | | | | | | कृषि योग्य | 4246 | |

[फा. सं. भाराराप्रा/भू.अ./11013/01/नोटिफ-सी.जी./रायपुर]

राजेश गुप्ता, उप-सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th May, 2016

S.O. 1739(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, number S.O. 2803(E), dated 13 October, 2015, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub Section (ii) issued under sub section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/ Four/Six-laning, etc.), maintenance, management and operation of National Highway No. - 6 (New-NH-53), on the stretch of land from Km 230.490 to Km. 238.966 (Aurang - Saraipali Section) in District Raipur in the State of Chhattisgarh;

And whereas the substance of the said notification has been published in “Patrika” dated 03 November, 2015 and “The Hitavada”, both dated 03 November, 2015 under sub-section (3) A of the said Act;

And whereas objection has been received from any person by the Competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the stretch of land from Km. 230.490 to Km. 238.966 (Aurang-Saraipali Section) of the National Highway No. 06 (New NH-53) including construction of bypasses in the State of Chattisgarh.

| Serial number | Name of the District | Name of the Taluk/ Tehsil | Name of the Village | Khasra number | Type of Land | Nature of Land | Area (in square metres) | Name of the Person Interested |
|---------------|----------------------|---------------------------|---------------------|---------------|--------------|------------------------|-------------------------|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Raipur | Aurang | (1) Aurang | 1611 | Government | Road | 1276 | Govt. of C.G. |
| | | | | <u>1612</u> | Government | Road | 544 | Govt. of C.G. |
| | | | | 1613 | Government | Road | 360 | Govt. of C.G. |
| | | | (2) Baihar | <u>364</u> | Private | Land under Cultivation | 450 | Kamalnarayan S/o Manrakhan Gupta |
| | | | | 366 | Private | Land under Cultivation | 1576 | Brijbhushan S/o Chandulal Other etc. |
| | | | | 368/3 | Private | Land under Cultivation | 40 | Rabin S/o Brijmohan Gupta |
| | | | | | | Total | 4246 | |

[F. No. NHAI/LA/11013/01/Notif.-C.G./Raipur]

RAJESH GUPTA, Dy. Secy.